



# राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

## हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

मंगलवार, 23 जनवरी, 2024 / 3 माघ, 1945

हिमाचल प्रदेश सरकार

FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

RESOLUTION

*Shimla-171002, the 16th January, 2024*

**No.Fin.(C)A(3)-13 /2016.**—It is announced for general information that during the year 2023-2024, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other

---

221—राजपत्र / 2023-23-01-2024 (11807)

similar funds shall carry interest at the rate of 7.1 % (seven point one percent) w.e.f. 1st October, 2023 to 31st December, 2023.

Ordered that Resolution be published in Gazette of Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR,  
Pr. Secretary (Finance).

## FINANCE (REGULATIONS) DEPARTMENT

### RESOLUTION

*Shimla-171002, the 16th January, 2024*

**No.Fin.(C)A(3)-13 /2016.**—It is announced for general information that during the year 2023-2024, accumulations at the credit of subscribers to the General Provident Fund and other similar funds shall carry interest at the rate of 7.1 % (seven point one percent) w.e.f. 1st January, 2024 to 31st March, 2024.

Ordered that Resolution be published in Gazette of Himachal Pradesh.

By order,

DEVESH KUMAR,  
Pr. Secretary (Finance).

### वन विभाग

### अधिसूचना

शिमला-2, 11 जनवरी, 2024

**संख्या: एफ.एफ.ई.-बी.-एफ014 / 1 / 2023.**—पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र एफ.संख्या 8-78 / 2010 / एफ.सी., तारीख 14-11-2012 द्वारा हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.पी.सी.एल.) के पक्ष में जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत् परियोजना के सन्निर्माण हेतु 63.5015 हैक्टेयर वन भूमि के व्यपवर्तन के लिए जलमग्नता के कारण बने संपूर्ण जलाशय को भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन संरक्षित वन के रूप में घोषणा के अधधीन अनुमोदन प्रदान किया था;

पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन संरक्षित वन के रूप में जलाशय क्षेत्र की घोषणा, सांस्कृतिक और सौंदर्यपरक सेवाओं सहित जल व्यवस्था की पारिस्थितिकीय प्रणाली (ईको सिस्टम) सेवाओं को प्रदान करने के अतिरिक्त प्रवासी पक्षियों, सरीसृपों, मछलियों और सूक्ष्म जीव-जन्तुओं आदि हेतु व्यवहार्य आवास प्रदान करेगी:

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जलमग्नता के कारण बने 27.7605 हैक्टेयर (27.0107 हैक्टेयर वन भूमि और 0.7498 हैक्टेयर प्राइवेट भूमि) के क्षेत्रफल वाले शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत् परियोजना के संपूर्ण जलाशय को संरक्षित वन के रूप में सृजित करते हैं। प्रस्तावित संरक्षित वन की सीमाएं निम्न प्रकार से होंगी:—

**उत्तर.**—उत्तरी सीमा ग्राम पंचायत पोवारी के पोर गांव से प्रारम्भ होकर जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट 31°33' 19.02" उत्तर 78°16' 51.11" पूर्व में 1986 मीटर की ऊंचाई के साथ

**पश्चिम.**—पश्चिम (उत्तर-पश्चिम) सीमा, रिकांगपिओ (जिला मुख्यालय) के पहुंच मार्ग के संगम बिन्दु के समीप राष्ट्रीय उच्च मार्ग 05 पर सतलुज नदी की दायीं तरफ से प्रारम्भ होकर जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट 31°32' 54.96" उत्तर 78°16' 44.20" पूर्व सहित 1990 मीटर की ऊंचाई तक

**पूर्व.**—पूर्व (दक्षिण-पूर्व) सीमा, बैराज धुरी सड़क समीप से ग्राम पंचायत पोवारी के अन्तर्गत पुरबनी गांव तक जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट 31°32' 40.15" उत्तर 78°16' 44.80" पूर्व सहित 1982 की मीटर की ऊंचाई तक

**दक्षिण.**—दक्षिण (दक्षिण-पश्चिम) सीमा 1981 मीटर की ऊंचाई पर खवांगी गांव में एन.एच.-05 के पास सतलुज नदी के दाहिने किनारे से प्रारम्भ होती है जी.पी.एस. को-ऑर्डिनेट 31°32' 16.76" उत्तर 78°16' 50.45" पूर्व

जलमग्नता शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना के प्रमुख जी.पी.एस. स्थान निम्नलिखित तालिका के अनुसार है:-

क्रम संख्या	अक्षांश	देशांतर	ऊंचाई
1.	31°33'19.02" उ०	78°16'51.11" पू०	1986
2.	31°32'54.96" उ०	78°16'44.20" पू०	1990
3.	31°32'40.15" उ०	78°16'44.80" पू०	1982
4.	31°32'16.76" उ०	78°16'50.45" पू०	1981
5.	31°32'18.25" उ०	78°16'54.34" पू०	2050
6.	31°32'41.48" उ०	78°16'49.48" पू०	2029
7.	31°32'55.67" उ०	78°16'48.12" पू०	2014
8.	31°33'18.71" उ०	78°16'56.11" पू०	2026

हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में शोंगटोंग-कड़छम जल विद्युत परियोजना के प्रस्तावित संरक्षित वन क्षेत्र का गूगल मानचित्र निम्नलिखित है:-



इसके अतिरिक्त, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-4 की उप-धारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त सीमाओं की भीतर या किसी वन उपज में सम्मिलित किसी भी भूमि में या उस पर किसी भी व्यक्ति के पक्ष में विद्यमान किसी

भी अधिकार के अस्तित्व, प्रकृति और सीमा की जांच और अवधारणा करने और उसका निपटान करने हेतु, भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अध्याय-II में यथा उपबंधित, सहायक बंदोबस्त अधिकारी, शिमला को, वन बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,  
डॉ० अमनदीप गर्ग, भा.प्र.से.  
प्रधान सचिव (वन)।

*[Authoritative English text of this Department's Notification No. FFE-B-F014/1/2023 dated 11th January, 2024 as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].*

## FOREST DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 11th January, 2024*

**No. FFE-B-F014/1/2023.**—WHEREAS, the Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, *vide* its letter No. F. No. 8-78/2010/FC dated 14-11-2012 conveyed the approval for diversion of 63.5015 ha. of forest land for the construction of Shongtong–Karcham Hydro Electric Project in Kinnaur District, Himachal Pradesh in favour of Himachal Pradesh Power Corporation Limited (HPPCL) subject to declaration of entire reservoir created due to submergence as Reserve Forest under Indian Forest Act, 1927;

AND WHEREAS, the declaration of reservoir area as Reserve Forest under the Act *ibid* will provide viable habitat for migratory birds, reptiles, fishes and micro fauna etc. besides providing eco system services of water provision with cultural and aesthetical services;

NOW THEREFORE, in exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Indian Forest Act, 1927, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute the entire reservoir of the Shongtong Karcham Hydro Electric Project measuring 27.7605 ha. (27.0107 ha. forest land and 0.7498 ha. private land) created due to submergence as Reserve Forest. The boundaries of the proposed Reserve Forest will be as under—

**North.**—North boundary starting from the Por village of Gram Panchayat Powari with an altitude of 1986 meters GPS Co-ordinate 31°33'19.02"N 78°16' 51.11" E

**West.**—West (North-West) boundary starting from right bank of river Satluj at NH-05 near junction point of approach road to Reckong Peo (Distt. Headquarter) at altitude of 1990 meters with GPS Co-ordinate 31°32'54.96"N 78°16'44.20" E


**East.**—East (South-East) boundary starting from near barrage axis road to Purbani Village under Gram Panchayat Powari at an altitude of 1982 meters with GPS Co-ordinate 31°32' 40.15"N 78°16'44.80" E

**South.**—South (South-West) boundary starting from right bank of river Satluj near NH-05 at Khawangi Village at an altitude of 1981 meters with GPS Co-ordinate 31°32'16.76"N 78°16' 50.45" E

The prominent GPS locations of the submergence of Shongthong- Karcham Hydro Electric Project is as the table below:—

Sl. No.	Latitude	Longitude	Altitude
1.	31°33'19.02"N	78°16'51.11"E	1986
2.	31°32'54.96"N	78°16'44.20"E	1990
3.	31°32'40.15"N	78°16'44.80"E	1982
4.	31°32'16.76"N	78°16'50.45"E	1981
5.	31°32'18.25"N	78°16'54.34"E	2050
6.	31°32'41.48"N	78°16'49.48"E	2029
7.	31°32'55.67"N	78°16'48.12"E	2014
8.	31°33'18.71"N	78°16'56.11"E	2026

The Google map of the proposed of the Reserved Forest Area of Shongtong-Karcham Hydro Electric Project in Kinnaur, H.P. is as under:—



FURTHER, in exercise of the powers conferred by clause (c) of sub-section (1) of section-4 of the Indian Forest Act, 1927, the Governor, Himachal Pradesh is also pleased to appoint Assistant Settlement Officer, Shimla as Forest Settlement Officer to inquire into and determine the existence, nature and extent of any rights alleged to exist in favour of any person in or over any land comprised within aforesaid limits, or in or over any forest-produce, and to deal with the same as provided in Chapter-II of Indian Forest Act, 1927.

By order,

Dr. Amandeep Garg, IAS,  
Principal Secretary (Forest).

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 18 जनवरी, 2024

संख्या: टी0सी0पी0-एफ05/04/2023.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खण्ड (क) और खण्ड (घ) और धारा 66 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) और (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्रमशः सरकार की अधिसूचना संख्या : टी0सी0पी-एफ (5)-4/2000, तारीख 30-11-2000 और

अधिसूचना संख्या टी0सी0पी-एफ(5)-1/2006, तारीख 12-01-2007 और तारीख 19-12-2000 व 17-03-2007 को राजपत्र में प्रकाशित, अधिसूचनाओं द्वारा यथा सम्मिलित शोधी विशेष क्षेत्र और शिमला योजना क्षेत्र के निम्नलिखित राजस्व गांव को उक्त योजना से अपवर्जित करते हैं, इसलिए ये क्षेत्र शोधी विशेष क्षेत्र और शिमला योजना क्षेत्र का हिस्सा नहीं रहेंगे :-

ग्राम संख्या	राजस्व गांव का नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जनसंख्या (2011 की जनगणना के अनुसार)
<b>शोधी विशेष क्षेत्र -क</b>				
1.	वडोह	338	37.46	42
2.	क्यारगी	30/42	31.06	111
3.	बगाना	343	34.62	131
4.	पांती	344	21.96	201
5.	धानोकरी	345	22.15	41
6.	शिलरू	331	44.56	150
7.	पतिना	330	40.40	216
8.	खलोग	95	71.23	294
9.	थल चमारू	329	11.32	278
10.	कोट	326	54.00	207
11.	चंदोली	325	14.62	82
12.	पावाबो	324	28.38	154
13.	खयारी	322	6.85	2
14.	बलैन	16/195	47.20	90
15.	बनवी	16/ 196	96.14	170
16.	मवारी	16/198	13.47	78
17.	बड़ोग	16/188	26.87	30
18.	कफलेढ़	16/169	192.46	281
19.	जाकारी	9 /108	42.34	47
20.	खयारी	9 /101	85.77	177
21.	बाघली	86/337	173.18	512
<b>शिमला योजना क्षेत्र-ख</b>				
<b>तहसील एवं जिला शिमला</b>				
1.	झाकड़ी निचली	74	42.10	134
2.	शाहेच	78	31.54	82
3.	चौरी	70	14.61	18
4.	दफाबाग	65	40.60	132
5.	चलोहाग	69	14.99	114
6.	उप-महाल झमरेच (महाल झाकड़ी निचली)	74	45.13	39
7.	जधोग	72	11.95	20
8.	कशाड़	71	6.89	19
9.	जंगल बलाउ (महाल बलाउ)	13/121	23.07	72
10.	बलोगड़ी	73	17.07	51
11.	जंगल राप्रा (महाल राप्रा)	134	2.01	34

12.	जाजेड़	133	4.76	17
13.	धनेड़ी	13/120	10.31	2
14.	कड़ेच	13/123	17.28	33
15.	राप्रा	134	23.77	60
16.	गवाही खुर्द	137	14.05	34
17.	पातशाल कलां	131	21.41	78
18.	तलयाला	132	45.95	136
19.	चंरूड	13 /122	94.61	149
20.	भलोह	13 /126	43.52	135
21.	टिकरी माशा	13 /118	55.59	130
22.	खडोल	13 /110	19.33	52
23.	रोड़ा	10 /105	76.18	236
24.	लाडवी	11 /111	52.71	91
25.	कटेड	10/ 107	40.79	114
26.	खनेत	7/91	16.48	93
27.	वधावनी	7/92	10.70	6
28.	गाग	7/93	27.54	63
29.	जडेनी	29 /336	29.67	119
30.	पटशाल खुर्द	130	15.31	61
31.	खड़ाऊ	129	31.00	119
32.	गवाही कलां	141	49.00	248
33.	सेरी	13/ 127	26.45	63
34.	पंचौटी	13 /125	17.76	1
35.	पनेश	113	150.03	339
36.	शावला	12 /116	22.88	46
37.	नेर	8/ 96	10.94	18
38.	जाबाग	7/90	150.03	65
39.	पत्ता	140	35.00	94
40.	जंगल दलता महाल पंचौटी और महाल मझैला)	13/ 124 और 13/ 125		0
41.	मंझैला	13 /124	22.89	54
42.	शिल्डू	112	87.46	150
43.	देशड़ी	12/115	19.35	40
44.	चवाग	104	58.43	170
45.	रौड़ी	142	36.00	91
46.	जंगल खरयाड (महाल शिल्डू)	112	41.84	0
47.	शालगड़ा	10/106	21.72	53
48.	फागला	8/94	47.33	86
49.	शिल्ली	28/334	52.54	170
50.	भलावग	28/332	48.55	68
51.	धमुन	9 /160	92.29	148
52.	पनेवला	9/ 97	25.43	70
53.	गलोट	12/117	75.67	214
54.	फगेरा	114	75.67	184
55.	कुटासनी	8/95	67.00	196

56.	कलिमु	28/335	17.87	62
57.	दधोल	9 /98	14.87	58
58.	रौडी	9/ 99	16.16	37
59.	खडू	9 /100	54.35	22
60.	भावना	28/333	72.41	224
61.	अंजी	33/362	14.00	37
62.	क्यारगी	342	31.06	28
63.	चानन	340	62.05	94
64.	मझौला	341	45.98	90
65.	शिल्लीबागी	339	96.11	311
66.	रामपुरी	277	176.13	652
67.	हयुन	33 /363	10.24	34
68.	शामलीग	33 /364	78.72	112
69.	जडयाल	33 /365	44.49	48
70.	धानूल	33/366	40.17	105
71.	खरोग	33/ 367	23.22	44
72.	बिजली	368	16.89	57
73.	शगीन	369	39.44	195
74.	बौन	388	32.71	36
75.	कोटला	387	33.02	31
76.	जड़ियाना	374	19.90	75
77.	धारीघाट	375	8.41	7
78.	शादियाणा	380	11.45	20
79.	फायल	371	100.15	501
80.	ककरेट	360	54.34	37
81.	संधूत	359	35.08	28
82.	तराडी	386	22.30	59
83.	लगा	389	18.97	35
84.	नागड़ी	386	22.30	59
85.	दूह	33/361	26.11	22
86.	धारी बागेरी	372	68.79	245
87.	डोल	373	30.87	57
88.	लगडू	376	25.49	61
89.	सारी	351	104.94	133
90.	नारेवल	358	8.21	12
91.	सलाना	357	143.99	338
92.	थड़ी	392	20.00	42
93.	न्याई	391	33.08	63
94.	शकोह	390	16.69	62
95.	जावग	385	7.77	23
96.	सहल	383	11.27	20
97.	जमाति	384	11.95	55
98.	बडी	377	4.46	16
99.	जलैल	379	32.72	145
100.	गणपेरी	378	33.65	118
101.	कीड़	352	48.38	52
102.	लगडू	353	56.89	68



103.	थलकधार	354	51.65	72
104.	थलकनाल	355	32.31	94
105.	बाथून	394	49.51	137
106.	लूहाराड़ा	395	3.83	65
तहसील कंडाघाट, जिला सोलन				
1.	शेरर	178	117.98	278
2.	मुंडी खुर्द	179	14.58	26
3.	मुंडी कलां	180	94.74	87
4.	कनैर	185	106.56	299
5.	नागलथी	184	22.28	29
6.	रुगडा	183	4.69	68
7.	सेर	181	51.93	197
8.	मजहर	182	3.13	35
9.	शक्रेट	323	15.94	50
10.	सुंखी	321	46.30	202
11.	बागी	327	9.97	26
12.	नटैला	328	27.72	58
13.	वधाबानी	348	38.36	40
14.	धौल कोलियान	344	28.86	0
15.	कनौली	306	42.68	82
16.	शाथल्याणा	317	47.04	78
17.	फागोली	314	21.80	30
18.	शालोग कोलियान	316	9.46	37
19.	शालोग जोगियान	315	7.18	40
20.	काहला	94	108.18	249
21.	मझायारी	346	44.43	67
22.	टिक्कर	310	37.55	64
23.	निउयून	313	42.00	103
24.	थोई	349	78.65	98
25.	दानवती	350	213.23	408
26.	मशरु	302	38.81	62
27.	धांडो	312	15.86	39
28.	झेखड़ी	311	56.81	135
29.	सुलाणी	88	22.15	64
30.	बडियावाला	89	74.10	69
31.	कंदौर	90	26.26	100
32.	आनजी ब्राह्मणा	91	61.48	99
33.	बोधन	87	99.80	140
34.	कोट	86	77.64	112
35.	गरु	75	49.98	167
36.	चुंद	76	25.98	31
37.	बनोटा	85	20.85	37
38.	टिक्कर	84	36.90	71
39.	रुगटा	77	11.49	15
40.	गैंडाडी	79	36.38	52
41.	माकल्याण	78	35.30	10

42.	कोटला	83	24.11	4
43.	नाल का गौण	81	19.73	28
44.	ढाला	80	8.45	0
45.	कटोह	276	116.69	284
46.	डिहारी	424	94.91	209
47.	लाचोग	82	88.81	127
48.	कैथली	425	75.42	128
49.	शुगंला	398	92.01	135
50.	शैडयाल	399	49.17	120

शोधी विशेष क्षेत्र और शिमला योजना क्षेत्र से उपरोक्त निर्दिष्ट राजस्व गांवों के अपवर्जन के परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त योजना क्षेत्र में उपरोक्त राजस्व गांवों को सम्मिलित करते हुए नए योजना क्षेत्र नामतः "जाठिया देवी योजना क्षेत्र" को नीचे दिए गए विनिर्देशों के अनुसार गठित करते हैं:-

जाठिया देवी योजना क्षेत्र				
क्रम संख्या	राजस्व गांव का नाम	हदबस्त संख्या	क्षेत्र (हेक्टेयर में)	जनसंख्या 2011 (जनगणना के अनुसार)
1.	बड़ोह	338	37.46	42
2.	क्यारगी	30 /42	31.06	111
3.	बगाना	343	34.62	131
4.	पांती	344	21.96	201
5.	धानोकरी	345	22.15	41
6.	शिलरू	331	44.56	150
7.	पतिना	330	40.40	216
8.	खलोग	95	71.23	294
9.	थालू चमारू	329	11.32	278
10.	कोट	326	54.00	207
11.	चंदोली	325	14.62	82
12.	पावाबो	324	28.38	154
13.	सयारी	322	6.85	2
14.	बलैन	16/195	47.20	90
15.	बनवी	16/ 196	96.14	170
16.	मवारी	16/198	13.47	78
17.	बड़ोग	16/188	26.87	30
18.	कफलेरह	16/169	192.46	281
19.	जाकारी	9 /108	42.34	47
20.	खायरी	9 /101	85.77	177
21.	बागली	86/337	173.18	512
22.	झाकड़ी निचली	74	42.10	134
23.	शाहेच	78	31.54	82
24.	चौरी	70	14.61	18
25.	दफाबग	65	40.60	132
26.	चलोहग	69	14.99	114
27.	उप-महाल झमरेच (महाल झाकड़ी निचली)	74	45.13	39
28.	जाधोग	72	11.95	20

29.	कशाड	71	6.89	19
30.	जंगल बलाउ (महाल बलाउ)	13/121	23.07	72
31.	बलोगड़ी	73	17.07	51
32.	जंगल राप्रा (महाल राप्रा)	134	2.01	34
33.	जाजेड	133	4.76	17
34.	धनेड़ी	13/120	10.31	2
35.	कडेच	13/123	17.28	33
36.	राप्रा	134	23.77	60
37.	गवाही खुर्द	137	14.05	34
38.	पातशाल कलां	131	21.41	78
39.	तलयाला	132	45.95	136
40.	चंरुड	13 /122	94.61	149
41.	भलोह	13 /126	43.52	135
42.	टिकरी माशा	13 /118	55.59	130
43.	खडोल	13 /110	19.33	52
44.	रोड़ा	10 /105	76.18	236
45.	लाडवी	11 /111	52.71	91
46.	कटेड	10/ 107	40.79	114
47.	खनेत	7/91	16.48	93
48.	वधावनी	7/92	10.70	6
49.	गाग	7/93	27.54	63
50.	जडेनी	29 /336	29.67	119
51.	पटशाल खुर्द	130	15.31	61
52.	खड़ाऊ	129	31.00	119
53.	गवाही कलां	141	49.00	248
54.	सेरी	13/ 127	26.45	63
55.	पंचौटी	13 /125	17.76	1
56.	पनेश	113	150.03	339
57.	शावला	12 /116	22.88	46
58.	नेर	8/ 96	10.94	18
59.	जाबाग	7/90	150.03	65
60.	पत्ता	140	35.00	94
61.	जंगल दलता महाल पंचौटी और महाल मझैला)	13/ 124 और 13/ 125		0
62.	मंझैला	13 /124	22.89.06	54
63.	शिल्डू	112	87.46	150
64.	देशड़ी	12/115	19.35	40
65.	चवाग	104	58.43	170
66.	रौड़ी	142	36.00	91
67.	जंगल खरयाड (महाल शिल्डू)	112	41.84	0
68.	शालगडा	10/106	21.72	53
69.	फागला	8/94	47.33	86
70.	शिल्ली	28/334	52.54	170
71.	भलावग	28/332	48.55	68

72.	धमुन	9 /160	92.29	148
73.	पनेवला	9/ 97	25.43	70
74.	गलोट	12/117	75.67	214
75.	फगेरा	114	75.67	184
76.	कुटासनी	8/ 95	67.00	196
77.	कलिमु	28/335	17.87	62
78.	दधोल	9 /98	14.87	58
79.	रौड़ी	9/ 99	16.16	37
80.	खडूं	9 /100	54.35	22
81.	भावना	28/333	72.41	224
82.	अंजी	33/362	14.00	37
83.	क्यारगी	342	31.06	28
84.	चनन	340	62.05	94
85.	मझौला	341	45.98	90
86.	शिल्लीबागी	339	96.11	311
87.	रामपुरी	277	176.13	652
88.	हयुन	33 /363	10.24	34
89.	शामलीग	33 /364	78.72	112
90.	जडयाल	33 /365	44.49	48
91.	धानूल	33/366	40.17	105
92.	खरोग	33/ 367	23.22	44
93.	बिजली	368	16.89	57
94.	शगीन	369	39.44	195
95.	बौन	388	32.71	36
96.	कोटला	387	33.02	31
97.	जड़ियाना	374	19.90	75
98.	धारीघाट	375	8.41	7
99.	शादियाणा	380	11.45	20
100.	फायल	371	100.15	501
101.	ककरेट	360	54.34	37
102.	संधूत	359	35.08	28
103.	तराडी	386	22.30	59
104.	लगा	389	18.97	35
105.	नागड़ी	386	22.30	59
106.	दूह	33/361	26.11	22
107.	धारी बागेरी	372	68.79	245
108.	डोल	373	30.87	57
109.	लगडू	376	25.49	61
110.	सारी	351	104.94	133
111.	नारेवल	358	8.21	12
112.	सलाना	357	143.99	338
113.	थड़ी	392	20.00	42
114.	न्याई	391	33.08	63
115.	शकोह	390	16.69	62
116.	जावग	385	7.77	23
117.	सहल	383	11.27	20
118.	जमाति	384	11.95	55

119.	बड़ी	377	4.46	16
120.	जलैल	379	32.72	145
121.	गणपेरी	378	33.65	118
122.	कीड़	352	48.38	52
123.	लगडू	353	56.89	68
124.	थलकधार	354	51.65	72
125.	थलकनाल	355	32.31	94
126.	बाथून	394	49.51	137
127.	लूहाराड़ा	395	3.83	65
तहसील कंडाघाट जिला सोलन				
128.	शेरर	178	117.98	278
129.	मुंडी खुर्द	179	14.58	26
130.	मुंडी कला	180	94.74	87
131.	कनैर	185	106.56	299
132.	नागलथी	184	22.28	29
133.	रुगड़ा	183	4.69	68
134.	सेर	181	51.93	197
135.	मजहर	182	3.13	35
136.	शक्रेट	323	15.94	50
137.	सुंखी	321	46.30	202
138.	बागी	327	9.97	26
139.	नटैला	328	27.72	58
140.	वधाबानी	348	38.36	40
141.	धौल कोलियान	344	28.86	0
142.	कनौली	306	42.68	82
143.	शाथल्याणा	317	47.04	78
144.	फागोली	314	21.80	30
145.	शालोग कोलियान	316	9.46	37
146.	शालोग जोगियान	315	7.18	40
147.	काहला	94	108.18	249
148.	मझयारी	346	44.43	67
149.	टिक्कर	310	37.55	64
150.	निउयून	313	42.00	103
151.	थोई	349	78.65	98
152.	दानवती	350	213.23	408
153.	मशरू	302	38.81	62
154.	धांडो	312	15.86	39
155.	झेखड़ी	311	56.81	135
156.	सुलाणी	88	22.15	64
157.	बडियावाला	89	74.10	69
158.	कंदौर	90	26.26	100
159.	आनजी ब्राहमणा	91	61.48	99
160.	बोधन	87	99.80	140
161.	कोट	86	77.64	112
162.	गरू	75	49.98	167
163.	चुंद	76	25.98	31

164.	बनोटा	85	20.85	37
165.	टिक्कर	84	36.90	71
166.	रुगटा	77	11.49	15
167.	गैंडाडी	79	36.38	52
168.	माकल्याण	78	35.30	10
169.	कोटला	83	24.11	4
170.	नाल का गौण	81	19.73	28
171.	ढाला	80	8.45	0
172.	कटोह	276	116.69	284
173.	डिहारी	424	94.91	209
174.	लाचोग	82	88.81	127
175.	कैथली	425	75.42	128
176.	शुगंला	398	92.01	135
177.	शैडयाल	399	49.17	120
	<b>Total</b>		<b>7657.05</b>	<b>18192</b>

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, यह और आदेश देते हैं कि भवन की विधिक प्रास्थिति वही बनी रहेगी क्योंकि ये क्षेत्र पहले से ही हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 अधीन (दायरे) में थे और उपर्युक्त ग्रामों के भू-उपयोग पर पहले से ही रोक लगी हुई है।

### जाठिया देवी योजना क्षेत्र सीमाएं

**उत्तर.**—राजस्व ग्राम रौदी, हदबस्त संख्या 142, पट्टा, हदबस्त संख्या 140, पटशाल खुर्द, हदबस्त संख्या: 130, गवाही खुर्द, हदबस्त संख्या 137, राप्रा, हदबस्त संख्या 134, बलोगड़ी, हदबस्त संख्या 73, झमरेच, हदबस्त संख्या 74, जकड़ी निचली, हदबस्त संख्या 74, जकड़ी निचली, हदबस्त संख्या 74, शाहेच, हदबस्त संख्या 78, चौरी, हदबस्त संख्या 70, चाल्होग, हदबस्त संख्या 69, बटुआ, हदबस्त संख्या 67, जंगल बलाऊ, हदबस्त संख्या 13/121, धनेड़ी, हदबस्त संख्या 13/120, दफावाग, हदबस्त संख्या 65, कडेच, हदबस्त संख्या 13/123, टिकारी माशाह, हदबस्त संख्या 13/118 की बाहरी सीमा से प्रारम्भ होकर और राजस्व ग्राम खडोल, हदबस्त संख्या 13/110 की बाहरी सीमाओं तक।

**पूर्व.**—राजस्व ग्राम खडोल, हदबस्त संख्या 13/110, लाडवी हदबस्त संख्या 11/111, कटेड, हदबस्त संख्या 10/107, खनेत, हदबस्त संख्या 7/91, बढवानी हदबस्त संख्या 7/92, गाग, हदबस्त संख्या 7/93 जडेनी, हदबस्त संख्या 29/336 बाघेली, हदबस्त संख्या 86/336, बड़ोह, हदबस्त संख्या 338, मझौला, हदबस्त संख्या 341, शिल्लीबागी हदबस्त संख्या 339, रामपुरी, हदबस्त संख्या 277, शगीन, हदबस्त संख्या 369, फायल, हदबस्त संख्या 371, लगडू, हदबस्त संख्या 376, गणपेरी हदबस्त संख्या 378, की बाहरी सीमाओं से प्रारम्भ होकर और राजस्व ग्राम जलेल, हदबस्त संख्या 379 की बाहरी सीमाओं तक।

**दक्षिण.**—राजस्व ग्राम जलेल, हदबस्त संख्या 379, सेहल, 383, लुहारदा, हदबस्त संख्या 394, नई, हदबस्त संख्या 391, धलकनाल हदबस्त संख्या 355, थलकधार, हदबस्त संख्या 354, शैडयाल, हदबस्त संख्या 399, शंगुल, हदबस्त संख्या 398, दिहारी हदबस्त संख्या 424, कटोह, हदबस्त संख्या 276, नाल का गांव, हदबस्त संख्या 81, गंदरोड़ी, हदबस्त संख्या 79, गरु, हदबस्त संख्या 76, बोधन, हदबस्त संख्या 87 की बाहरी सीमा से प्रारम्भ होकर और राजस्व ग्राम सुलानी, हदबस्त संख्या 88, की बाहरी सीमाओं तक।

**पश्चिम.**—राजस्व ग्राम सुलानी, हदबस्त संख्या 88, मशरू, हदबस्त संख्या 302, टिक्कर, हदबस्त संख्या 310, कनोली, हदबस्त संख्या 306, शाडल्याणा, हदबस्त संख्या 317, शक्रेट, हदबस्त संख्या 323, पवाबो,

हदबस्त संख्या 324, बलैन, हदबस्त संख्या 16/195, बवानी, हदबस्त संख्या 16/156, गवारी, हदबस्त संख्या 16/169, बडोग, हदबस्त संख्या 16/188, कनैर, हदबस्त संख्या 185, शेरर, हदबस्त संख्या 178 द्वारा सीमाबद्ध और राउडी, हदबस्त संख्या 142 की बाहरी सीमा तक।

आदेश द्वारा,

देवेश कुमार,  
प्रधान सचिव(नगर एवं ग्राम योजना)।

[Authoritative English text of this Department Notification No. TCP-F05/04/2023 Shimla, dated 18-01-2024 under Article 348(3) fo the Constitution of India].

## TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

### NOTIFICATION

*Shimla-2, the 18th January, 2024*

**No. TCP-F05/4/2023.**—The Governor, Himachal Pradesh, in exercise of the powers vested under clause (a) and (b) of sub-section (3) of section 66 & clause (a) and clause (d) of sub section (2) of section 13 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No. 12 of 1977), is pleased to exclude the following revenue villages of Shoghi Special Area and Shimla Planning Area which were included in the said planning area *vide* Government Notification No. TCP-F(5)-4/2000, dated 30-11-2000, published in the Rajpatra (e-Gazette) on dated 19-12-2000 and Notification No. TCP-F(5)-1/2006, dated 12-01-2007, published in the Rajpatra (e-Gazette) on dated 17-03-2007 respectively. As such the following areas shall cease to be part of the Shoghi Special Area and Shimla Planning Area :—

Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population as per census 2011
<b>A-Shoghi Special Area</b>				
1.	Badoh	338	37.46	42
2.	Kayargi	30 /42	31.06	111
3.	Bagana	343	34.62	131
4.	Panti	344	21.96	201
5.	Dhanokri	345	22.15	41
6.	Shilru	331	44.56	150
7.	Patina	330	40.40	216
8.	Khalog	95	71.23	294
9.	Thalu Chamaru	329	11.32	278
10.	Kot	326	54.00	207
11.	Chandoli	325	14.62	82
12.	Pawabo	324	28.38	154
13.	Sayari	322	6.85	2
14.	Balain	16/195	47.20	90
15.	Banwi	16/ 196	96.14	170
16.	Mawari	16/198	13.47	78
17.	Barog	16/188	26.87	30
18.	Kaphlerh	16/169	192.46	281

19.	Jakari	9 /108	42.34	47
20.	Khayari	9 /101	85.77	177
21.	Baghli	86/337	173.18	512
<b>B -Shimla Planning Area</b>				
<b>Tehsil &amp; District Shimla</b>				
1.	Jhakdi Nichali	74	42.10	134
2.	Shahech	78	31.54	82
3.	Chauri	70	14.61	18
4.	Dafawag	65	40.60	132
5.	Chalohag	69	14.99	114
6.	Up-Mohal Jhamrech (Mohal Jhakdi Nichali)	74	45.13	39
7.	Jadhog	72	11.95	20
8.	Kashad	71	6.89	19
9.	Jungle Balau (Mohal Balau)	13/121	23.07	72
10.	Balogdi	73	17.07	51
11.	Jungle Rapra (Mohal Rapra)	134	2.01	34
12.	Jajed	133	4.76	17
13.	Dhanedi	13/120	10.31	2
14.	Kadech	13/123	17.28	33
15.	Rapra	134	23.77	60
16.	Gawahi Khurd	137	14.05	34
17.	Patshal Kalan	131	21.41	78
18.	Talayala	132	45.95	136
19.	Charund	13 /122	94.61	149
20.	Bhaloh	13 /126	43.52	135
21.	Tikri Mashah	13 /118	55.59	130
22.	Khadol	13 /110	19.33	52
23.	Roda	10 /105	76.18	236
24.	Ladvi	11 /111	52.71	91
25.	Kated	10/ 107	40.79	114
26.	Khanet	7/91	16.48	93
27.	Badhawnee	7/92	10.70	6
28.	Gaag	7/93	27.54	63
29.	Jadenee	29 /336	29.67	119
30.	Patshal Khurd	130	15.31	61
31.	Khadau	129	31.00	119
32.	Gawahi Kalan	141	49.00	248
33.	Seri	13/ 127	26.45	63
34.	Panchauti	13 /125	17.76	1
35.	Panesh	113	150.03	339
36.	Shavla	12 /116	22.88	46
37.	Ner	8/ 96	10.94	18
38.	Jabag	7/90	150.03	65
39.	Patta	140	35.00	94
40.	Jungal Dalata (Mohal Panchauti)	13/124 and 13/125		0



	and Mohal Majhaila)			
41.	Majhaila	13 /124	22.89	54
42.	Shildu	112	87.46	150
43.	Deshdi	12/115	19.35	40
44.	Chavag	104	58.43	170
45.	Raudi	142	36.00	91
46.	Jungle Khryad (Mohal Shildu)	112	41.84	0
47.	Shalagda	10/106	21.72	53
48.	Phagla	8/94	47.33	86
49.	Shilli	28/334	52.54	170
50.	Bhalavag	28/332	48.55	68
51.	Dhamun	9 /160	92.29	148
52.	Panevla	9/ 97	25.43	70
53.	Galot	12/117	75.67	214
54.	Fagera	114	75.67	184
55.	Kutasni	8/95	67.00	196
56.	Kalimu	28/335	17.87	62
57.	Dadhol	9 /98	14.87	58
58.	Raudi	9/ 99	16.16	37
59.	Khadun	9 /100	54.35	22
60.	Bhavanna	28/333	72.41	224
61.	Anji	33/362	14.00	37
62.	Kayargi	342	31.06	28
63.	Chanan	340	62.05	94
64.	Majhaura	341	45.98	90
65.	Shillibagi	339	96.11	311
66.	Rampuri	277	176.13	652
67.	Hiun	33 /363	10.24	34
68.	Shamleeg	33 /364	78.72	112
69.	Jadyal	33 /365	44.49	48
70.	Dhanool	33/366	40.17	105
71.	Kharog	33/ 367	23.22	44
72.	Bijli	368	16.89	57
73.	Shageen	369	39.44	195
74.	Baun	388	32.71	36
75.	Kotla	387	33.02	31
76.	Jadiyana	374	19.90	75
77.	Dharighat	375	8.41	7
78.	Shadiyana	380	11.45	20
79.	Phayal	371	100.15	501
80.	Kakret	360	54.34	37
81.	Sandhut	359	35.08	28
82.	Taradi	386	22.30	59
83.	Laga	389	18.97	35
84.	Nagadi	386	22.30	59
85.	Dooh	33/361	26.11	22
86.	Dhari Bageri	372	68.79	245
87.	Dol	373	30.87	57

88.	Lagdu	376	25.49	61
89.	Sari	351	104.94	133
90.	Nareval	358	8.21	12
91.	Salana	357	143.99	338
92.	Thadi	392	20.00	42
93.	Nyae	391	33.08	63
94.	Shakoh	390	16.69	62
95.	Javag	385	7.77	23
96.	Sehal	383	11.27	20
97.	Jamati	384	11.95	55
98.	Badi	377	4.46	16
99.	Jalel	379	32.72	145
100.	Ganperi	378	33.65	118
101.	Keed	352	48.38	52
102.	Lagdu	353	56.89	68
103.	Thalakdhar	354	51.65	72
104.	Thalaknal	355	32.31	94
105.	Bathun	394	49.51	137
106.	Luharada	395	3.83	65
<b>Tehsil Kandaghat, District Solan</b>				
1.	Sharer	178	117.98	278
2.	Mundi Khurd	179	14.58	26
3.	Mundi Kalan	180	94.74	87
4.	Kanair	185	106.56	299
5.	Nagalthi	184	22.28	29
6.	Rugda	183	4.69	68
7.	Ser	181	51.93	197
8.	Majhar	182	3.13	35
9.	Shakret	323	15.94	50
10.	Sunkhi	321	46.30	202
11.	Bagi	327	9.97	26
12.	Nataila	328	27.72	58
13.	Vadhawani	348	38.36	40
14.	Thaul Kolian	344	28.86	0
15.	Kanoli	306	42.68	82
16.	Shadhlyana	317	47.04	78
17.	Fagoli	314	21.80	30
18.	Shalog Kolian	316	9.46	37
19.	Shalog Jogiyan	315	7.18	40
20.	Kahla	94	108.18	249
21.	Majhyari	346	44.43	67
22.	Tikkar	310	37.55	64
23.	Niuen	313	42.00	103
24.	Dhroie	349	78.65	98
25.	Danwati	350	213.23	408
26.	Mashru	302	38.81	62
27.	Dhando	312	15.86	39
28.	Jhekhadi	311	56.81	135
29.	Sulani	88	22.15	64
30.	Badiyavla	89	74.10	69

31.	Kandaur	90	26.26	100
32.	Aanji Brahamna	91	61.48	99
33.	Bodhan	87	99.80	140
34.	Kot	86	77.64	112
35.	Garu	75	49.98	167
36.	Chund	76	25.98	31
37.	Banota	85	20.85	37
38.	Tikkar	84	36.90	71
39.	Rugta	77	11.49	15
40.	Gandrodi	79	36.38	52
41.	Makalyan	78	35.30	10
42.	Kotla	83	24.11	4
43.	Nal Ka Gaun	81	19.73	28
44.	Dhala	80	8.45	0
45.	Katoh	276	116.69	284
46.	Dihari	424	94.91	209
47.	Lachog	82	88.81	127
48.	Kathli	425	75.42	128
49.	Shungal	398	92.01	135
50.	Shadyal	399	49.17	120

Consequent upon the exclusion of the above referred to revenue villages from Shoghi Special Area and Shimla Planning Area, the Governor of Himachal Pradesh, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13 of the Act *ibid* is pleased to constitute the new planning area namely “**Jathia Devi Planning Area**” by including the above revenue Villages in the said planning areas as per specifications given below:—

Jathia Devi Planning Area				
Sl. No.	Name of Revenue Village	Hadbast No.	Area (in Hectares)	Population as per census 2011
1.	Badoh	338	37.46	42
2.	Kayargi	30 /42	31.06	111
3.	Bagana	343	34.62	131
4.	Panti	344	21.96	201
5.	Dhanokri	345	22.15	41
6.	Shilru	331	44.56	150
7.	Patina	330	40.40	216
8.	Khalog	95	71.23	294
9.	Thalu Chamaru	329	11.32	278
10.	Kot	326	54.00	207
11.	Chandoli	325	14.62	82
12.	Pawabo	324	28.38	154
13.	Sayari	322	6.85	2
14.	Balain	16/195	47.20	90
15.	Banwi	16/ 196	96.14	170
16.	Mawari	16/198	13.47	78
17.	Barog	16/188	26.87	30
18.	Kaphlerh	16/169	192.46	281
19.	Jakari	9 /108	42.34	47
20.	Khayari	9 /101	85.77	177

21.	Baghli	86/337	173.18	512
22.	Jhakdi Nichali	74	42.10	134
23.	Shahech	78	31.54	82
24.	Chauri	70	14.61	18
25.	Dafawag	65	40.60	132
26.	Chalohag	69	14.99	114
27.	Up-Mohal Jhamrech (Mohal Jhakdi Nichali)	74	45.13	39
28.	Jadhog	72	11.95	20
29.	Kashad	71	6.89	19
30.	Jungle Balau (Mohal Balau)	13/121	23.07	72
31.	Balogdi	73	17.07	51
32.	Jungle Rapra (Mohal Rapra)	134	2.01	34
33.	Jajed	133	4.76	17
34.	Dhanedi	13/120	10.31	2
35.	Kadech	13/123	17.28	33
36.	Rapra	134	23.77	60
37.	Gawahi Khurd	137	14.05	34
38.	Patshal Kalan	131	21.41	78
39.	Talayala	132	45.95	136
40.	Charund	13/122	94.61	149
41.	Bhaloh	13/126	43.52	135
42.	Tikri Mashah	13/118	55.59	130
43.	Khadol	13/110	19.33	52
44.	Roda	10/105	76.18	236
45.	Ladvi	11/111	52.71	91
46.	Kated	10/107	40.79	114
47.	Khanet	7/91	16.48	93
48.	Badhawnee	7/92	10.70	6
49.	Gaag	7/93	27.54	63
50.	Jadenee	29/336	29.67	119
51.	Patshal Khurd	130	15.31	61
52.	Khadau	129	31.00	119
53.	Gawahi Kalan	141	49.00	248
54.	Seri	13/127	26.45	63
55.	Panchauti	13/125	17.76	1
56.	Panesh	113	150.03	339
57.	Shavla	12/116	22.88	46
58.	Ner	8/ 96	10.94	18
59.	Jabag	7/90	150.03	65
60.	Patta	140	35.00	94
61.	Jungal Dalata (Mohal Panchauti and Mohal Majhaila)	13/124 and 13/125		0
62.	Majhaila	13 /124	22.89.06	54
63.	Shildu	112	87.46	150
64.	Deshdi	12/115	19.35	40

65.	Chavag	104	58.43	170
66.	Raudi	142	36.00	91
67.	Jungle Khryad (Mohal Shildu)	112	41.84	0
68.	Shalagda	10/106	21.72	53
69.	Phagla	8/94	47.33	86
70.	Shilli	28/334	52.54	170
71.	Bhalavag	28/332	48.55	68
72.	Dhamun	9 /160	92.29	148
73.	Panevla	9/ 97	25.43	70
74.	Galot	12/117	75.67	214
75.	Fagera	114	75.67	184
76.	Kutasni	8/ 95	67.00	196
77.	Kalimu	28/335	17.87	62
78.	Dadhol	9 /98	14.87	58
79.	Raudi	9/ 99	16.16	37
80.	Khadun	9 /100	54.35	22
81.	Bhavanna	28/333	72.41	224
82.	Anji	33/362	14.00	37
83.	Kayargi	342	31.06	28
84.	Chanan	340	62.05	94
85.	Majhauila	341	45.98	90
86.	Shillibagi	339	96.11	311
87.	Rampuri	277	176.13	652
88.	Hiun	33 /363	10.24	34
89.	Shamleeg	33 /364	78.72	112
90.	Jadyal	33 /365	44.49	48
91.	Dhanool	33/366	40.17	105
92.	Kharog	33/ 367	23.22	44
93.	Bijli	368	16.89	57
94.	Shageen	369	39.44	195
95.	Baun	388	32.71	36
96.	Kotla	387	33.02	31
97.	Jadiyana	374	19.90	75
98.	Dharighat	375	8.41	7
99.	Shadiyana	380	11.45	20
100.	Phayal	371	100.15	501
101.	Kakret	360	54.34	37
102.	Sandhut	359	35.08	28
103.	Taradi	386	22.30	59
104.	Laga	389	18.97	35
105.	Nagadi	386	22.30	59
106.	Dooh	33/361	26.11	22
107.	Dhari Bageri	372	68.79	245
108.	Dol	373	30.87	57
109.	Lagdu	376	25.49	61
110.	Sari	351	104.94	133
111.	Nareval	358	8.21	12
112.	Salana	357	143.99	338
113.	Thadi	392	20.00	42

114.	Nyace	391	33.08	63
115.	Shakoh	390	16.69	62
116.	Javag	385	7.77	23
117.	Sehal	383	11.27	20
118.	Jamati	384	11.95	55
119.	Badi	377	4.46	16
120.	Jalel	379	32.72	145
121.	Ganperi	378	33.65	118
122.	Keed	352	48.38	52
123.	Lagdu	353	56.89	68
124.	Thalakdhar	354	51.65	72
125.	Thalaknal	355	32.31	94
126.	Bathun	394	49.51	137
127.	Luharada	395	3.83	65
<b>Tehsil Kandaghat, District Solan</b>				
128.	Sharer	178	117.98	278
129.	Mundi Khurd	179	14.58	26
130.	Mundi Kalan	180	94.74	87
131.	Kanair	185	106.56	299
132.	Nagalthi	184	22.28	29
133.	Rugda	183	4.69	68
134.	Ser	181	51.93	197
135.	Majhar	182	3.13	35
136.	Shakret	323	15.94	50
137.	Sunkhi	321	46.30	202
138.	Bagi	327	9.97	26
139.	Nataila	328	27.72	58
140.	Vadhawani	348	38.36	40
141.	Thaul Kolian	344	28.86	0
142.	Kanoli	306	42.68	82
143.	Shadhlyana	317	47.04	78
144.	Fagoli	314	21.80	30
145.	Shalog Kolian	316	9.46	37
146.	Shalog Jogiyan	315	7.18	40
147.	Kahla	94	108.18	249
148.	Majhyari	346	44.43	67
149.	Tikkar	310	37.55	64
150.	Niuen	313	42.00	103
151.	Dhroie	349	78.65	98
152.	Danwati	350	213.23	408
153.	Mashru	302	38.81	62
154.	Dhando	312	15.86	39
155.	Jhekhadi	311	56.81	135
156.	Sulani	88	22.15	64
157.	Badiyavla	89	74.10	69
158.	Kandaur	90	26.26	100
159.	Aanji Brahamna	91	61.48	99
160.	Bodhan	87	99.80	140
161.	Kot	86	77.64	112
162.	Garu	75	49.98	167

163.	Chund	76	25.98	31
164.	Banota	85	20.85	37
165.	Tikkar	84	36.90	71
166.	Rugta	77	11.49	15
167.	Gandrodi	79	36.38	52
168.	Makalyan	78	35.30	10
169.	Kotla	83	24.11	4
170.	Nal Ka Gaun	81	19.73	28
171.	Dhala	80	8.45	0
172.	Katoh	276	116.69	284
173.	Dihari	424	94.91	209
174.	Lachog	82	88.81	127
175.	Kathli	425	75.42	128
176.	Shungal	398	92.01	135
177.	Shadyal	399	49.17	120
	<b>Total..</b>		<b>7657.05</b>	<b>18192</b>

The Governor of Himachal Pradesh is further pleased to order that the legal status of the building shall continue to remain same as these areas were already under the ambit of Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and Land Use of the aforesaid Villages stand already frozen.

#### JATHIA DEVI PLANNING AREA BOUNDARY

**North.**—Starting from the outer boundaries of revenue Villages **Raudi**, Hadbast No. 142, Patta, Hadbast No. 140, Patshal Khurad, Hadbast No.130, Gawahi Khurad Hadbast No. 137, Rapra, Hadbast No.134, Balogdi, Hadbast No.73, Jhamrech, Hadbast No.74, Jakadi Nichli, Hadbast No.74, Shahech, Hadbast No.78, Chauri, Hadbast No.70, Chalhog, Hadbast No.69, Badua, Hadbast No.67, Jangal Balau, Hadbast No. 13/121, Dhanedi, Hadbast No.13/120, Dafawag, Hadbast No.65, Kadech, Hadbast No.13/123, Tikari Mashah, Hadbast No.13/118 and upto outer boundaries of revenue Village **Khadol**, Hadbast No.13/110.

**East.**—Starting from the outer boundaries of revenue Village of **Khadol** Hadbast No. 13/110, Ladvi, Hadbast No.11/111, Kated, Hadbast No.10/107, Khanet, Hadbast No.7/91 Badhawane, Hadbast No. 7/92, Gaag, Hadbast No. 7/93, Jadene, Hadbast No.29/336, *Bagheli* Hadbast No. 86/336, *Badoh*, Hadbast No. 338, Majhau, Hadbast No.341, Shillibagi, Hadbast No. 339, *Rampuri*, Hadbast No. 277, Shageen Hadbast No. 369, Phayal Hadbast No. 371, Lagdu Hadbast No. 376, Ganperi, Hadbast No. 378, and upto outer boundaries of revenue village of **Jalel**, Hadbast No.379.

**South.**—Starting from the outer boundaries of revenue Village of **Jalel**, Hadbast No.379, Sehla, 383, Luharda, Hadbast No. 395, Bathun, Hadbast No. 394, Nayee, Hadbast No. 391, Thalaknal Hadbast No.355, Thalakdhar, Hadbast No. 354, Shadyal, Hadbast No. 399, Shungal, Hadbast No. 398, Dihari, Hadbast No. 424, Katoh, Hadbast No. 276, Nal Ka Gaon, Hadbast No. 81, Gandrodi, Hadbast No. 79, Garu, Hadbast No. 75, Bodhan, Hadbast No. 87, and upto outer boundaries revenue Village **Sulani**, Hadbast No. 88.

**West.**—Bounded by the Revenue Village **Sulani**, Hadbast No. 88, Mashru, Hadbast No. 302, Tikkar, Hadbast No. 310, Kanoli, Hadbast No. 306, Shadlyana, Hadbast No. 317, Shakret,

Hadbast No. 323, Pawabo, Hadbast No. 324, Balain, Hadbast No. 16/195, Bawani, Hadbast No. 16/156, Mawari, Hadbast No. 16/169, Barog, Hadbast No. 16/188, Kanair, Hadbast No. 185, Sharer, Hadbast No. 178, up to outer boundary of **Raudi**, Hadbast No. 142.

By order,

DEVESH KUMAR,  
Principal Secretary (TCP).

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / N / 2024

तारीख पेशी : 24-01-2024

श्रीमती रीना कुमारी पुत्री थोपली राम, निवासी महाल पडमन, डाकघर कच्छेडा, मौजा एवं तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता महाल पडमन, मौजा जयसिंहपुर

प्रतिवादी।

विषय.—भू-राजस्व अभिलेख स्थित महाल पडमन, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 में नाम सम्बन्धित अन्य राजस्व अभिलेख में हिमाचल प्रदेश लैंड रैवन्यू एक्ट, 1954 की धारा 38(अ) के तहत नाम दुरुस्ती बारे।

मुस्त्री मुनादी बनाम आम जनता:

उपरोक्त विषय के संदर्भ में श्रीमती रीना कुमारी पुत्री थोपली राम, निवासी महाल पडमन, डाकघर कच्छेडा, मौजा एवं तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0प्र0 ने स्वयं हाजिर होकर अपने नाम की दुरुस्ती बारे प्रार्थना—पत्र पेश करके प्रार्थना की है कि उसका सही नाम रीना कुमारी है परन्तु महाल पडमन के राजस्व रिकार्ड में उसका नाम रींकु देवी गलत दर्ज हुआ है। प्रार्थिया महाल हजा में अपने नाम की दुरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः इस मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को महाल पडमन के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थिया का नाम रींकु देवी के बजाए रीना कुमारी उपनाम रींकु देवी करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24-01-2024 को इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में किसी भी किस्म का कोई उजर व एतराज नहीं सुना जाएगा।

आज दिनांक 10-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।



**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)**

मुकद्दमा : इन्द्राज मृत्यु तिथि

पेशी : 24-01-2024

सीमलो देवी, उम्र 62 वर्ष पत्नी श्री मेहर सिंह, निवासी गांव व डाकघर डोहब, तहसील शाहपुर, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.—जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम की जेर धारा 13(3) पुनरावलोकित 1969 के तहत मृत्यु प्रमाण—पत्र लेने बारे।

उपरोक्त मुकद्दमा बारे प्रार्थिया ने इस न्यायालय में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फिया गुजारा है जिसमें लिखा है कि उसकी माता श्रीमती गीता देवी पत्नी श्री टून्ठा राम, निवासी गांव व डाकघर शाहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 का देहांत दिनांक 15-01-1995 को हुआ है लेकिन अज्ञानतावश उनकी मृत्यु तिथि नगर पंचायत शाहपुर में दर्ज न करवा सके। प्रार्थिया उक्त मृत्यु तिथि को दर्ज करवाना चाहता है।

अतः उक्त प्रार्थना—पत्र के सन्दर्भ में यदि आम जनता या अन्य किसी को उक्त मृत्यु तिथि को नगर पंचायत शाहपुर के रिकार्ड में दर्ज करवाने बारे कोई एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन इस अदालत में दिनांक 24-01-2024 को दोपहर बाद 2.00 बजे हाजिर आ सकता है। हाजिर न आने की स्थिति में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे और बाद में कोई भी उजर या एतराज जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक ..... को मेरी मोहर व हस्ताक्षर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
शाहपुर, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

**ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)**

मुकद्दमा नं0 : 02 / N / 2024

तारीख पेशी : 24-01-2024

श्रीमती ईशरी देवी पत्नी आत्म चन्द, निवासी महाल उत्तरापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनत

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना—पत्र।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी:

प्रार्थीया श्रीमती ईशरी देवी पत्नी आत्म चन्द, निवासी महाल उत्तरापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि उनकी पुत्री का जन्म दिनांक 06-01-1974 को गांव उत्तरापुर में हुआ था। परन्तु अज्ञानतावश उनके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवाया गया है। अतः प्रार्थीया इस न्यायालय के माध्यम से जन्म पंजीकरण करने का आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत वीजापुर को जारी करवाना चाहती है।

अतः प्रार्थीयाका आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उक्त मीना कुमारी की जन्म तिथि 06-01-1974 के पंजीकरण बारे किसी प्रकार की आपत्ति या एतराज है तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 24-01-2024 को अदालत में हाजिर होकर उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उक्त मीना कुमारी पुत्री आत्म चन्द के जन्म पंजीकरण करने के आदेश स्थानीय ग्राम पंचायत जन्म व मृत्यु, ग्राम पंचायत वीजापुर को पारित कर दिये जाएंगे।

ये इश्तहार मोहर व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10-01-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा नं0 : 01 / N / 2024

तारीख पेशी : 24-01-2024

श्री संजय कुमार पुत्र श्री भूरी सिंह, गांव एवं डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—मुस्त्री मुनादी व इश्तहार राजपत्रित बराये विवाह दर्ज करने बारे।

इश्तहार मुस्त्री मुनादी:

श्री संजय कुमार पुत्र श्री भूरी सिंह, गांव एवं डाकघर हरोट, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में स्वयं हाजिर होकर प्रार्थना-पत्र मय बयान हल्फिया पेश किए व आवेदन किया कि दिनांक 14-04-1993 को हिन्दू रीति-रिवाज से इनकी शादी गांव व डाकघर उत्तरापुर, तहसील जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा हि0 प्र0 में हुई है। व तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रह रहे हैं। किन्तु अज्ञानतावश विवाह तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत में दर्ज नहीं करवा सके हैं अतः अपनी शादी को ग्राम पंचायत हरोट में दर्ज करवाने बारे आवेदन किया है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस इश्तहार मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी के माध्यम से प्रतिवादी आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त शादी को दर्ज करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 24-01-2024 को सायं 2.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा बाद गुजरने तारीख पेशी किसी भी

किस्म का उजर या एतराज न सुना जाएगा व उपरोक्त शादी को पंजीकृत करने के आदेश सम्बन्धित स्थानीय उप-पंजीकार, सह ग्राम पंचायत हरोट को जारी कर दिया जावेगा।

ये इशतहार मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से आज दिनांक 10-01-2024 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,  
जयसिंहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर  
जिला कुल्लू, हि0 प्र0

केस नं0 : 02-MT / 2024

दायर तिथि : 04-01-2024

1. श्री जीत राम पुत्र श्री हरजी राम, निवासी गांव खड़ीसेरी, डाकघर हुरला, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

2. श्रीमती वीना देवी पुत्री श्री भोला राम, गांव फरेडी, डाकघर गौशैणी, तहसील बंजार, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।  
वादी पक्ष।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

प्रतीवादी पक्ष।

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 04-01-2024 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 05-02-2009 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोट, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

**ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, भुन्तर, तहसील भुन्तर  
जिला कुल्लू, हि0 प्र0**

केस नं0 : 01-MT / 2024

दायर तिथि : 26-12-2023

1. श्री मूलु पुत्र श्री उत्तमू, निवासी गांव भुलंग, डाकघर मौहल, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।
2. श्रीमती ममता देवी पुत्री श्री लाल चन्द, गांव रैखडू, डाकघर पतलिकूहल, तहसील मनाली, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.— प्रार्थना-पत्र जेर धारा 5(4) हि0 प्र0 रजिस्ट्रीकरण नियम, 2004 विवाह पंजीकरण बारे।

उपरोक्त मामला में प्रार्थीगण ने दिनांक 26-12-2023 को इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पेश किये हैं कि उन्होंने दिनांक 10-02-2022 को शादी कर ली है और तब से दोनों पति-पत्नी के रूप में रहते चले आ रहे हैं परन्तु प्रार्थीगण ने अपनी शादी का इन्द्राज सम्बन्धित ग्राम पंचायत बुलंग, तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0 में दर्ज नहीं करवाया है।

अतः सर्वसाधारण व आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त प्रार्थीगण की शादी से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के अभिलेख में दर्ज करने बारे एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार शादी दर्ज करने के आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत को पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
कार्यकारी दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार,  
भुन्तर, जिला कुल्लू, हि0 प्र0।

-----  
**ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, तहसील भुन्तर,  
जिला कुल्लू (हि0प्र0)**

केस नं0 : 01-CT 2024

दायर तिथि : 28-04-2023

तारीख पेशी : 23-01-2024

श्री घनश्याम पुत्र श्री लाल चन्द पुत्र श्री होतम राम, निवासी गांव व डाकघर जरी, उप-तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थी।

## बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

नोटिस.—दरखास्त खाना काश्त की दुरुस्ती बारे।

प्रार्थना—पत्र श्री घनश्याम पुत्र श्री लाल चन्द पुत्र श्री होतम राम, निवासी गांव व डाकघर जरी, उप—तहसील जरी, जिला कुल्लू (हि0प्र0) द्वारा दिनांक 28-04-2023 को इस अदालत में दावा पेश किया है जिसमें आग्रह किया गया है कि खाता खतौनी नं0 187/286 खसरा नं0 2951/89, रकबा तादादी 0-04-0, जमाबनदी वर्ष 2015-16 में खाना काश्त के कॉलम में व तावे मर्जी श्री ग्याहरू पुत्र टोहरू व गही पुत्र करमूकर साकन देह तावे मर्जी दर्ज हैं जोकि गलत है। अब प्रार्थी खाना काश्त तावे मर्जी के कॉलम में अपना नाम दर्ज करना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त प्रार्थी की खाना काश्त का इन्द्राज करने बारे कोई एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 को सुबह 10.00 बजे या इससे पूर्व असागतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी एतराज समायत न होगा तथा नियमानुसार खाना काश्त का इन्द्राज करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 09-01-2024 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—  
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,  
तहसील भुन्तर, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री विष्णु नेगी, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, तहसील रामपुर बुशैहर,  
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

मुकद्दमा नं0 36/23

तारीख दायर : -12-2023

श्रीमती छेरिंग डोलमा पुत्री स्व0 श्री मोती राम पुत्र बुटुग, गांव घराट, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश प्रार्थी।

## बनाम

1. श्री रविंद्र पुत्र श्री सन्त लाल, गांव रांवी, डा0 सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
2. श्रीमती सेब दासी पत्नी श्री सन्त लाल, गांव रांवी, डा0 सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
3. श्रीमती अंजू पुत्री श्री सन्त लाल, गांव रांवी, डा0 सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
4. श्रीमती सीमा पुत्री श्री सन्त लाल, गांव रांवी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
5. श्रीमती नीशू पुत्री श्री सन्त लाल, गांव रांवी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
6. श्रीमती रेशू पुत्री श्री सन्त लाल, गांव रांवी, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
7. श्री लैती पुत्र स्व0 पोशू, गांव रांवी, डा0 सराहन, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
8. श्रीमती हिरा दासी पुत्री स्व0 मोती राम हालाबाद पत्नी टाशी डैन्डुप, गांव घराट, डा0 बाँडा, उप—तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0,
9. श्रीमती

टूणी पत्नी श्री पोशू, गांव रांवी, डा0 सराहन, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला हि0प्र0, 10. श्रीमती डोलमा पुत्री स्व0 श्री मोती राम हालाबाद पत्नी श्री शेर सिंह, गांव घराट, डा0 बौडा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0। प्रतिवादी।

दरखास्त दुरुस्ती नाम माल कागजात अराजी खाता/खतौनी नं0 192 मिन/578, खसरा नं0 1322, 1331, 1332 व 1337, रकबा तादादी 00-05-79 है, महाल रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

दरखास्त कब्जा दुरुस्ती कागजात माल हमारे समक्ष प्रार्थिया श्रीमती छेरिंग डोलमा पुत्री स्व0 श्री मोती राम पुत्र स्व0 बुटुग, गांव घराट, डा0 बौडा, उप-तहसील सराहन, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस आशय के साथ प्रस्तुत की है कि खाता/खतौनी नं0 192 मिन/578, खसरा नं0 1322, 1331, 1332 व 1337, रकबा तादादी 00-05-79 है, महाल रांवी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) के खाना काबिज में मोती राम पुत्र बुटुग दावेदार बै इन्द्राज है प्रार्थी जिसके स्थान पर अपना कब्जा दर्ज करवाना चाहती है।

अतः आम जनता को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि राजस्व अभिलेख में मोती राम पुत्र बुटुग के बजाए प्रार्थी छेरिंग डोलमा का कब्जा दुरुस्त/दर्ज करने बारा किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-01-2024 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 22-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—  
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,  
उप-तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

**ब अदालत उप-मण्डल दण्डाधिकारी (ना0), चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश**

विवाह पंजीकरण हेतु:-

1. श्री प्रमोद पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी ग्राम पबास, डाकघर देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

2. श्रीमती भावना पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी कण्डाघाट, डा0 व तह0 कण्डाघाट, जिला सोलन (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

श्री प्रमोद पुत्र श्री सुरत सिंह, निवासी ग्राम पबास, डाकघर देवत, तहसील चौपाल, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस कार्यालय में आवेदन किया है कि उसका विवाह दिनांक अक्टूबर 2021 में श्रीमती भावना पुत्री श्री धर्म सिंह, निवासी कण्डाघाट, डा0 व तह0 कण्डाघाट, जिला सोलन हि0 प्र0 के साथ हुआ था जो

मूल रूप से नेपाली है। आज दिन तक विवाह का पंजीकरण ग्राम पंचायत मशडौंह के विवाह पंजीपाल के पास नहीं करवा सका। उसका विवाह पंजीकरण करने हेतु विवाह पंजीपाल ग्राम पंचायत मशडौंह को आदेश किये जाएं। आवेदन पत्र के साथ परिवार रजिस्टर नकल ग्राम पंचायत मशडौंह, वर-वधू के आधार कार्ड की छाया प्रतियां, शपथ-पत्र व श्रीमती भावना का विद्यालय त्याग प्रमाण-पत्र की छाया प्रति संलग्न की है

अतः आम जनता को इस नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि इस विवाह पंजीकरण बारे आम व खास को कोई आपत्ति/ऐतराज हो तो वह असातन या वकालतन जैसी भी सूरत हो दिनांक 23-01-2024 को या इससे पूर्व लिखित या मौखिक अपना आपत्ति/ऐतराज प्रस्तुत करे। दीगर सूरत में विवाह पंजीकरण के आदेश विवाह पंजीपाल ग्राम पंचायत मशडौंह, तहसील चौपाल को कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 20-12-2023 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-  
उप-मण्डल दण्डाधिकारी,  
चौपाल, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

#### नाम परिवर्तन

मैं, अंजू वर्मा पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा, पता वर्मा लाल भवन, गांव एवं डाकघर मशोबरा, तहसील एवं जिला शिमला यह घोषणा करती हूं कि मैंने अपना नाम धनवंति अंजू वर्मा से बदलकर अंजू वर्मा रख लिया है। संबंधित नोट करें।

अंजू वर्मा  
पत्नी श्री मनोज कुमार वर्मा,  
पता वर्मा लाल भवन, गांव एवं डाकघर मशोबरा,  
तहसील एवं जिला शिमला (हि0 प्र0)।

